



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2012/माघ 18, 1933

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2012/MAGHA 18, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2012

सं. 5/2012-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96-सीमा-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 में, को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम स ओर प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"37.	उपस्कर, उपकरण, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे, यदि,— जिग, फिक्चर, ड्राई, औजार, उपसाधन, (क) उक्त माल का आयात इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लीयर एक्सपेरीमेंटल रिएक्टर कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, (आईटीईआर) कार्यक्रम के अधिकृत कर्मशाला केन्द्रों द्वारा, जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिहित की जाए किया जाता है, और कास्टिंग, फोर्जिंग पाइपिंग, ट्यूबिंग, रसायन, जीव रसायन, रेफ्रिजेरेंट्स, कच्चा माल और उपभोग्य	(ख) आयातकर्ता आयात के समय हरक मामले में, सूची में उक्त माल प्रोजेक्ट निदेशक (आईटीईआर) इंडिया प्रोजेक्ट से संबंधित है, सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क सहायुक्त, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करना— (i) उक्त सूची में दर्शाया गया माल आईटीईआर-इंडिया प्रोजेक्ट के लिए है; (ii) उक्त माल उक्त प्रोजेक्ट के लिए ही उपयोग किया जाएगा।"

[फा. सं. 354/206/2010-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 39/1996-सीमा-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 110/2011 सीमा-शुल्क 19 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 888(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2012

No. 5/2012-Customs

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996, namely:—

In the said notification, in the Table, after Sl. No. 36 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"37.	Machinery, equipment instruments, If,— components, spares, jigs, fixtures, dies, tools, accessories, computer software, computer hardware, castings, forgings, piping, tubing, chemicals, bio-chemicals, refrigerants, raw materials and consumables.	(a) the said goods are imported by authorised works centres of the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)—India, Institute of Plasma Research, as may be designated by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy; and (b) the importer produces to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description duly certified by the Project Director, (ITER)—India project, to the effect that— (i) the goods mentioned in the said list are required for the purposes of the ITER—India project: (ii) the said goods shall be used only for the said project."

[F.No. 354/206/2010-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

Note : The principal notification No. 39/1996- Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended *vide* notification No. 110/2011-Customs, dated the 19th December, 2011 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 888 (E), dated 19th December, 2011.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 71(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 20 फरवरी, 2010 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सं. सा.का.नि. 95(अ), तारीख 20 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में:—

(i) पृष्ठ 12 में, सारणी के पश्चात्, लाइन 5 में "ग्रेड 420, ग्रेड 430" का लोप किया जाएगा,

(ii) पृष्ठ 12 में, सारणी के पश्चात्, लाइन 7 और 8 में "—
 ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318
 स्टील ग्रेड्स ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1

स्टील ग्रेड्स 2205 (एस 31803), 2304 (एस 32304)
 1.4509 और 1.4512" के स्थान पर "डुप्लेक्स स्टेनलेस
 फेरिटिक ग्रेड ईएन 1.4509" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 354/87/2009-टीआरयू (पार्ट-1)]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

IGENDUM

New Delhi, the 7th February, 2012

G.S.R. 71(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2010-Customs, dated the 20th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 95(E), dated the 20th February, 2010:—

(i) at page 12, after the Table in line 5 omit "Grade 420, Grade 430",

(ii) at page 12, after the Table, in line 7 and 8, for "Duplex Stainless Steel grades 2205 (S31803), 2304 (S32304), EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512", read "Duplex Stainless steel grades EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grade EN 1.4509".

[F. No. 354/87/2009- TRU (Pt.-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.